

## प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक – 02.09.2022

### चोरी की मोटर साइकिल के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार (थाना बाघराय)

दिनांक 01/09//2022 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक मोटर साइकिल ग्राम बिहार देवर पट्टी में सार्वजनिक शौचालय के सामने से चुरा ले जाने के संबंध में मु0अ0स0 254/22 धारा 379 भादवि थाना बाघराय में पंजीकृत हुआ था।

जनपद के थाना बाघराय के उ0नि0 श्री उ0नि0 जगदीश प्रसाद मय हमराह द्वारा तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान थाना स्थानीय के मु0अ0स0 254/22 धारा 379 भादवि से संबंधित 01 अभियुक्त वीरेन्द्र कुमार यादव पुत्र रामाधार यादव निवासी डिहवा रामदास पट्टी थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ को 01 मोटर साइकिल पैशन प्रो.(गाड़ी नं- UP72 BE 3511) के साथ थाना क्षेत्र के चौबरियन का पुरवा नहर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

### चोरी के 02 जोड़ी सफेद धातु के पायल व एक मोटर साइकिल (बिना नम्बर का) के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार (थाना अन्तू)

जनपद के थाना अन्तू के उ0नि0 श्री उ0नि0 सुनील कुमार राय मय हमराह द्वारा तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय के मु0अ0स0 176/22 धारा 380,457,411 भादवि से संबंधित 02 अभियुक्तों क्रमशः 1- फूलचन्द्र पुत्र राजकुमार सरोज, 2- विजय कुमार वर्मा पुत्र रमेसर निवासीगण डेवडसा, थाना संग्रामपुर, जनपद अमेठी को चोरी की 01 मोटर साइकिल स्पलैण्डर प्रो.(बिना नम्बर का) के साथ थाना क्षेत्र के किठावर बाजार के पास(अमेठी रोड पर) से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त विजय उपरोक्त के घर से चोरी की 02 जोड़ी पायल( चांदी का क्रमशः 30 ग्राम व 24 ग्राम, कीमत 1950/- रु0 व 1420/- रु0) बरामद किया गया।

**पूछताछ का विवरण –** गिरफ्तार व्यक्तियों से उक्त बरामदी के संबंध में पूछताछ की गई तो बताये कि बरामद मोटर साइकिल (स्पलैण्डर प्रो.) को हम लोगो नें लालगंज बाजार से चोरी किये थे तथा पूरव गांव में हुई नकबजनी में चोरी की गई ज्वैलरी व पैसों के संबंध में पूछने पर बताये कि उस चोरी में हमारे साथ कालीचरण पुत्र अज्ञात निवासी डेवडसा जनपद अमेठी भी शामिल था, जिसका चुराया हुआ गहना व पैसा जो करीब 20000/- रुपये था, हमलोगों नें खर्च कर दिया व गहनों में से चांदी के 02 जोड़ी पायल विजय उर्फ मुसई के घर में है।

**पुलिस टीम -** उ0नि0 श्री उ0नि0 सुनील कुमार राय मय हमराह थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।